

## ऑनलाइन प्रवेश आवेदन-पत्र भरने के लिए निर्देश

- कॉलेज की वेबसाइट [www.nascollege.in](http://www.nascollege.in) या [nascollege.org](http://nascollege.org) पर जाएं। (सर्वोत्तम अवलोकन के लिए गूगल क्रोम अथवा इन्टरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का प्रयोग करें)
- ONLINE ADMISSION टैब पर क्लिक करें।
- सर्वप्रथम, कॉलेज द्वारा आवंटित अपनी स्टूडेंट आई0 डी0 & अपनी पूर्ण जन्मतिथि भरें।
- अब दिया गया Captcha भरकर “NEXT” बटन पर क्लिक करें।
- यदि आपकी दी गयी सूचनाएँ सही हैं तथा कॉलेज के रिकॉर्ड से मेल खाती हैं तो आपको एक संदेश “VALIDATION SUCCESSFUL” दिखाई देगा। (अन्यथा आपको “VALIDATION FAILED” दिखाई देगा और आपको अपनी प्रविष्टियाँ दोबारा सही सही भरनी पड़ेंगी।)
- अब आपको आपका व्यक्तिगत सूचना पत्र दिखाई पड़ेगा। इसकी अधिकांश प्रविष्टियाँ पहले से ही भरी होंगी। शेष बची आवश्यक सूचनाओं को भरें और “SAVE AND NEXT” पर क्लिक करें।
- अब आपका प्रवेश आवेदन-पत्र सेव हो चुका है। आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एस.एम.एस. के द्वारा एक लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त होगा साथ ही आपको लॉगिन आईडी व पासवर्ड आपने आवेदन-पत्र पर ऊपर की ओर भी दिखायी देगा। इन दोनों को अपने पास लिख कर रख लें।
- फिर आपका शैक्षणिक विवरण पत्र खुल जायेगा। इसे सावधानी पूर्वक पूरा कीजिए तथा “SAVE AND NEXT” पर क्लिक कीजिये।
- अब आपको संलग्नक के रूप में अपने सभी अंकपत्र तथा प्रमाणपत्र अपलोड करने हैं। परन्तु यह सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक संलग्न फ़ाइल का साइज़ 200 KB से कम होना चाहिए। आप अपने अपलोड्स के साइज़ में परिवर्तन के लिए “माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर” सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं। सभी संलग्नकों को अपलोड करने के पश्चात “SAVE AND REVIEW” पर क्लिक करें। आपका सम्पूर्ण प्रवेश आवेदन-पत्र खुल जाएगा। अपने द्वारा भरी गई समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँच ले और यदि आवश्यक हो तो यथास्थान संशोधन कर लें।

**नोट:** 1. कुछ कागजात अनिवार्य हैं। उनको (\*) चिन्ह से चिह्नित किया गया है।

2. यदि किसी वजह से आप प्रथम प्रयास में अपना आवेदन पत्र पूरा नहीं भर पाते हैं, तो आप उसे किसी भी समय STUDENT PORTAL पर एस.एम.एस द्वारा प्राप्त लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड द्वारा लॉगिन करके पूरा कर सकते हैं।

- अब आपके द्वारा आवेदन-पत्र में दी गयी समस्त सूचनाओं एवं संलग्नकों की जाँच कॉलेज की प्रवेश समिति द्वारा की जाएगी। सभी कुछ सही पाए जाने पर आपका प्रवेश स्थायी (कन्फर्म) कर दिया

जायेगा | तथा इससे सम्बंधित सूचना आपको एस.एम.एस. के द्वारा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्रेषित कर दी जाएगी |

- आपका एडमिशन कॉलेज की प्रवेश समिति द्वारा कन्फर्म होने के पश्चात, **STUDENT PORTAL** पर आपका STATUS-“CONFIRMED” हो जायेगा ! उसके उपरांत आप कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करके ऑनलाइन प्रवेश शुल्क को जमा करने के लिए “PAYMENT” पर क्लिक करें |
- समय बचाने के लिए डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/UPI/अन्य सूचनाओं को अपने साथ पहले ही रख लें ताकि भुगतान प्रक्रिया शीघ्र ही संपन्न हो सके |
- ऑनलाइन भुगतान प्रक्रिया के लिए लागू शुल्क भारतीय रिजर्व बैंक तथा यूको बैंक के मानकों के अनुरूप हैं | निम्नतम शुल्क भुगतान के लिए विभिन्न प्रोसेसिंग दरों की जाँच कर लें |
- शुल्क का सफलतापूर्वक भुगतान होने के उपरांत आपको स्क्रीन पर फीस की ई-रसीद दिखाई देगी | ई-रसीद तथा संपूर्ण आवेदन-पत्र का प्रिंट निकालकर उसे अपने पास संभाल कर रख लें |
- इसके अतिरिक्त नियत तिथि के उपरांत स्थायी किये गए सभी प्रवेशार्थियों की सूची महाविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी |
- स्थायी प्रवेश की एस.एम.एस. द्वारा सूचना प्राप्त करने के उपरांत जमा किये गए शुल्क की ई-रसीद दिखाकर अपना परिचय पत्र एवं विवरणिका की मुद्रित कॉपी प्रॉक्टर कार्यालय से अवश्य प्राप्त कर लें | आपका परिचय पत्र कॉलेज के विद्यार्थी होने का प्रमाण है | इसे सदैव अपने साथ रखें |

### **हेल्पलाइन नंबर**

(केवल 10:00 पूर्वाह्न से 5:00 अपराह्न)

- किसी प्रकार की तकनीकी असुविधा होने पर निम्न नम्बरों पर संपर्क करें |  
**09756593654, 8266888130**
- कॉलेज आईडी अथवा अन्य शैक्षणिक जानकारी हेतु निम्न कोषों के अनुसार संपर्क करें –
  - बी.ए. / बी.एस.सी. / बी.कॉम. (द्वितीय एवं तृतीय) - 9897593270, 8410047398, 8791494823
  - सैल्फ फाइनेंस कोर्सेज - 9456829268